

BRAWN BIOTECH LIMITED
CIN:L74899DL1985PLC022468
REGD. OFFICE: C-64, Lajpat Nagar-1, New Delhi 110024
Extract of Standalone Un-Audited Financial Results for the quarter ended 30th June 2023
(Rs. In Lacs)

Sl. No.	Particulars	Standalone		
		Quarter ended 30-06-2023	Quarter ended 30-06-2022	Year ended 31-03-2023
1	Total income from operation	728.67	340.22	2,223.99
2	Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	(17.24)	13.12	(86.81)
3	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after extraordinary items)	(17.24)	13.12	(86.81)
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income]	(17.29)	12.81	(91.11)
5	Equity Share Capital	300.03	300.03	300.03
6	Reserve (excluding Revaluation Reserves as shown in the balance sheet of previous year	-	-	-
7	Earning per share (before extraordinary items)(not annualised): (of rs. 10 each)			
	(a) Basic (Rs.)	(0.58)	0.43	(3.04)
	(b) Diluted (Rs.)	(0.58)	0.43	(3.04)
8	Earning per share (after extraordinary items)(not annualised): (of rs. 10 each)			
	(a) Basic (Rs.)	(0.58)	0.43	(3.04)
	(b) Diluted (Rs.)	(0.58)	0.43	(3.04)

NOTES :

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly financial results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the company's website (www.brawnbiotech.com).
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 09-08-2023.
- The Financials has been prepared in accordance with Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 (Ins-AS) to the extent applicable. The Company has for the first time adopted IND-AS beginning 01st April 2017 with transition date of 01st April, 2016.
- The Company is engaged primarily in the business of Pharmaceuticals. Accordingly, there is no separate reportable segments as per Ind-AS 108 dealing with Operating Segments.
- Previous year/period figures have been regrouped/rearranged, wherever necessary to make them comparable with the current period figures.

For and on behalf of Board
For Brawn Biotech Limited
Sd/-
Brij Raj Gupta
Director
DIN No. 00974969

Date : 09.08.2023
Place : Delhi

BIRLA PRECISION TECHNOLOGIES LIMITED
CIN : L29220MH1986PLC041214
Registered Office : 23, Birla Mansion No. 2, First Floor, D. D. Sathe Marg, Prarthana Samaj, Mumbai - 400 004
Tel : +91 022 23825060, E-mail : info@birlaprecision.com, Web : www.birlaprecision.com
EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023
(₹ in Lakhs, except per share data)

Sr. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
		30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023	30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total Income from operations	4,095.80	6,907.22	6,318.21	26,370.74	4,091.24	6,908.00	6,318.21	26,364.62
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	269.46	501.90	614.86	2,065.02	210.80	454.69	614.86	1,944.02
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	269.46	501.90	614.86	2,065.02	210.80	454.69	614.86	1,944.02
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	222.21	(24.23)	608.43	1,528.32	163.89	(70.40)	608.43	1,407.32
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	222.21	(110.43)	608.43	1,442.12	163.89	(156.60)	608.43	1,321.12
6	Equity Share Capital	1,305.42	1,305.42	1,305.42	1,305.42	1,305.42	1,305.42	1,305.42	1,305.42
7	Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		11964.07		11,964.07		11843.08		11,843.08
8	Earnings Per Share (Face value of Rs. 2/- each)								
	Basic (₹)	0.34	(0.04)	0.93	2.34	0.25	(0.11)	0.93	2.16
	Diluted (₹)	0.34	(0.04)	0.93	2.34	0.25	(0.11)	0.93	2.16

Notes:

- The above is an extract of the detailed format for Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter ended 30th June, 2023 are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on Company's website (www.birlaprecision.com).
- Effective from 1st April 2018, the Company has reclassified two reporting segments namely, 1. Tooling 2. Automotive Components as reporting segments under Ind AS 108.
- The Company has incorporated new domestic subsidiary namely Birla Durotool Private Limited during previous financial year with paid up equity share capital of 10000 equity shares at Rs.10 each.
- The above financial results of the Company were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 10th August, 2023. The Statutory Auditor's have carried out a limited review of the above results pursuant to Regulation 33 of SEBI (Listing obligation and disclosure requirements) Regulations 2015 and furnished their report thereon.

For and on behalf of the Board of Directors
Vedant Birla
Chairman & Managing Director
DIN:03327691

Date: 10th August, 2023
Place: Mumbai

POLYPLEX CORPORATION LIMITED
CIN: L25209UR1984PLC011596
Regd. Office: Lohia Head Road, Khatima-262308, District Udham Singh Nagar, Uttarakhand
Email: investorrelations@polyplex.com Website: www.polyplex.com

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023

(Amount Rupees in Lakh)

Particulars	Quarter ended		Year ended	
	30-06-2023	31-03-2023	30-06-2022	31-03-2023
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
Total Income (Revenue from Operations and Other Income)	1,57,294	1,73,122	2,10,730	7,74,747
Profit (before exceptional item and Tax)	(1,282)	3,053	35,692	71,082
Profit before Tax (after exceptional item)	(1,282)	3,053	35,692	71,082
Net Profit after Tax and exceptional item	(1,031)	2,027	31,101	61,554
Total Comprehensive Income for the period [Comprising of Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(3,873)	6,452	30,302	87,618
Paid-up equity share capital (Face value Rs. 10/- each)	3,139	3,139	3,139	3,139
Other equity as per Audited Balance Sheet	-	-	-	3,45,097
Earnings Per Share (Face Value of Rs. 10/- each)				
(a) Basic : (In Rupees) (Not annualised)	(0.99)	2.42	59.58	110.97
(b) Diluted: (In Rupees) (Not annualised)	(0.99)	2.42	59.58	110.97

Notes:

- Additional information pursuant to Regulation 47 (1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 on Standalone Financial Results is as follows:
(Amount Rupees in Lakh)

Particulars	Quarter ended		Year ended	
	30-06-2023	31-03-2023	30-06-2022	31-03-2023
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
Total Income (Revenue from Operations and Other Income)	35,570	33,868	55,397	1,90,503
Profit for the period (before exceptional item and Tax)	81	(1,274)	13,929	32,149
Net Profit for the period after Tax and exceptional item	56	(1,130)	12,006	29,463
Earnings Per Share (Face Value of Rs. 10/- each)				
(a) Basic : (In Rupees) (Not annualised)	0.18	(3.60)	38.24	93.85
(b) Diluted: (In Rupees) (Not annualised)	0.18	(3.60)	38.24	93.85

2) Above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter ended June 30, 2023 are available on the Stock Exchange websites at BSE (www.bseindia.com), NSE (www.nseindia.com) and on the Company's website at www.polyplex.com.

Sd/-
Pranay Kothari
Whole Time Director
designated as Executive Director

Place : Noida
Date : August 10, 2023

Markets, Insight Out

Markets, Monday to Saturday

To book your copy,
sms **reachbs** to **57575** or
email **order@bsmail.in**

Business Standard
Insight Out

DOLLAR WEAR THE CHANGE
DOLLAR INDUSTRIES LIMITED
CIN : L17299WB1993PLC058969
Registered Office : OM Tower | 15th Floor | 32, J.L.Nehru Road | Kolkata - 700 071 | West Bengal | India
Phone No : 033-2288 4064-66 | Fax : 033-2288 4063 | E-mail : investors@dollarglobal.in | Website : www.dollarglobal.in
Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the three month ended June 30, 2023
(₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Year Ended	Previous Year Ended	Corresponding 3 months ended
		30-06-2023	31-03-2023	in the previous year
		Unaudited	Audited	30-06-2022
1	Total Income from Operations	32,823.93	1,39,382.93	36,167.02
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra-ordinary items #)	1,934.55	6,562.71	3,162.90
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extra-ordinary items #)	1,934.55	6,562.71	3,162.90
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extra-ordinary items#)	1,513.06	5,244.62	2,696.66
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	1,529.51	5,313.43	2,715.28
6	Equity Share Capital	1,134.32	1,134.32	1,134.32
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	69,587.67	-
8	Earnings per share (of ₹2/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic and Diluted (Not Annualised for the quarter)	2.56	9.26	4.75

The Company does not have Exceptional and/or Extra-ordinary items.

Key Numbers of Unaudited Standalone Financial Results
(₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Year Ended	Previous Year Ended	Corresponding 3 months ended
		30-06-2023	31-03-2023	in the previous year
		Unaudited	Audited	30-06-2022
1	Total Revenue from Operations	31,891.82	1,39,380.05	36,167.02
2	Profit Before Tax from Continuing Operations	1,782.19	7,141.75	3,253.32
3	Profit After Tax from Continuing Operations	1,409.57	5,823.82	2,787.08

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Unaudited Consolidated Financial Results filed for the three month ended 30th June, 2023 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Financial Results are available on the website of BSE (www.bseindia.com), NSE (www.nseindia.com) and on the Company's website (www.dollarglobal.in).
- The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board at their respective meetings held on August 10, 2023.
- The Company has prepared the Consolidated Financial Statement on quarterly basis and the Consolidated Financial figures include joint venture of the Company viz. Pepe Jeans Innerfashion Private Limited and subsidiary viz. Dollar Garments Private Limited (w.e.f. 20.01.2023).
- The previous period figures have been regrouped wherever necessary, to conform to the current period figures.
- The Statutory Auditors have provided un-modified limited review report on the Quarterly Results (both Standalone and Consolidated) of the Company for the three months ended June 30, 2023.

By Order of the Board of Directors
For Dollar Industries Limited
Sd/-
Vinod Kumar Gupta
Managing Director
DIN: 00877949

Place : KOLKATA
Date : August 10, 2023

OUR COLLECTIONS

KHADIM KHADIM INDIA LIMITED
Registered Office: 7th Floor, Tower C, DLF IT Park, 08 Major Arterial Road, Block -AF, New Town (Rajarhat) Kolkata -700156, West Bengal, India
Website: www.khadims.com
Tel No: +91 33 4009 0501; Fax No: +91 33 4009 0500
e-mail: compliance@khadims.com
CIN: L19129WB1981PLC034337

Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended 30th June, 2023
(₹ in million)

Sl. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		3 months ended 30th June, 2023	12 months ended 31st March, 2023	Corresponding 3 months ended 30th June, 2022	3 months ended 30th June, 2023	12 months ended 31st March, 2023	Corresponding 3 months ended 30th June, 2022
		1.	Total Income from Operations	1,579.80	6,602.64	1,660.73	1,579.80
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	22.20	225.71	45.42	22.19	225.42	45.41
3.	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	22.20	225.71	45.42	22.19	225.42	45.41
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	16.46	175.07	33.49	16.45	174.78	33.48
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	16.99	177.19	33.97	16.98	176.89	33.97
6.	Equity Share Capital	179.70	179.70	179.70	179.70	179.70	179.70
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)		2,073.85			2,072.52	
8.	Earnings per equity share (of ₹10/- each) (not annualised)						
	1. Basic (₹)	0.92	9.74	1.86	0.92	9.73	1.86
	2. Diluted (₹)	0.92	9.74	1.86	0.92	9.73	1.86

Note:

The above is an extract of the detailed format of Statement of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed financial results and this extract were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the meeting held on 10th August, 2023. The full format of the Statement of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Company's website (www.khadims.com) and on the websites of the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com).

For and on behalf of the Board of Directors
Siddhartha Roy Burman
Chairman & Managing Director
DIN : 00043715

Place: Kolkata
Date : August 10, 2023

sutlej SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED
Regd. Office: Pachpahar Road, Bhawanimandi - 326 502 (Rajasthan)
CIN : L17124RJ2005PLC020927 Tel : (07433)222052/82/90,
textiles and industries limited Email: hoffice@sutlejtextiles.com, Website: www.sutlejtextiles.com

EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2023
(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	3 months ended	Preceding 3 months ended	Corresponding 3 months ended in the previous Year	Previous Accounting Year ended
		30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	704.48	744.06	845.99	3074.23
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary Items)	(44.90)	(15.49)	93.17	101.32
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(44.90)	(31.36)	69.51	64.94
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(30.49)	(23.85)	45.38	37.28
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(30.24)	(22.77)	46.08	39.74
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 1/- per share)	16.38	16.38	16.38	16.38
7	Other Equity				1093.02
8	Earnings per share before / after extraordinary items (of ₹ 1/- each) (not annualised)				
	a) Basic :	(1.86)	(1.46)	2.77	2.28
	b) Diluted :	(1.86)	(1.46)	2.77	2.28

Key information on Standalone Financial Results

Sr. No.	Particulars	3 months ended	Preceding 3 months ended	Corresponding 3 months ended in the previous Year	Previous Accounting Year ended
		30.06.2023	31.03.2023	30.06.2022	31.03.2023
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	694.06	736.20	837.30	3039.17
2	Profit/(Loss) before exceptional items and tax	(43.47)	(12.24)	92.48	107.02
3	Profit/(Loss) Before Tax	(43.47)	(47.73)	68.82	51.02
4	Profit/(Loss) After Tax	(29.06)	(40.65)	44.71	22.84
5	Total Comprehensive Income	(28.81)	(39.22)	44.45	23.83

Notes:

- The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on 09 August 2023 and 10 August 2023.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the three months ended 30 June 2023 are available on Stock Exchanges websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and on Company's website www.sutlejtextiles.com.

For SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED
Rajib Mukhopadhyay
Managing Director & CFO

Place : Mumbai
Date : 10 August, 2023

रोमांटिक ड्रामा 'कुशी' का ट्रेलर हुआ आउट, 1 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म



साम्बन्ध रूप प्रभु और विजय देवकोटा की फिल्म 'कुशी' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। इस ट्रेलर की शुरूआत विजय यानी अरुण के करियर ट्रिप से होती है। यहाँ फिल्म को मूलनाटक साम्बन्ध यानी अरुण से होती है फिर दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों को लव स्टोरी में टर्मिनेट पॉइंट तक आता है जब आर्याया एक ब्राह्मण लड़की मिलकरती है और दोनों इस स्ट्रकचर में लगे हुए अपने-अपने रास्ते पर अगेरि एडिटर के लिए राशी करने की पूरी कोशिश करते हैं। जब बाबा नहीं बनती तो दोनों शादी कर लेते हैं। हालांकि दिक्कत नहीं खल नहीं होती। दोनों शादी के बाद एक-दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं। कृष्ण मिलाकर फिल्म में रोमांस, ड्रामा, फैमिली, इमोशन सब कुछ है। शिव सिनिंग के निर्देशन में बनी यह फिल्म 1 सितंबर को थिएटर में रिलीज होगी।

प्राउड मोमेंट

'द पिल्लकर्स रोड आइलैंड...' में हुई अमित स्टार 'सुपेथ' की एंटी



अमित साध को फिल्म 'सुपेथ' में मुख्य भूमिका में 'द पिल्लकर्स रोड आइलैंड' में प्रदर्शन फिल्म फेस्टिवल 2023 में भारत की ऑनरिफरल टोई के रूप में चुना गया है। ये फिल्म प्रसिद्ध भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दिशा सिन्हा की वास्तविक जीवनी और निष्पत्ति से प्रेरित है। इस फिल्म को निर्देशन प्रदान ने इन्फ्लेक्टा किया है। इस बारे में उन्होंने कहा, 'एक फिल्म निर्माता के रूप में मेरा मानना है कि हमारे फोटो जर्नलिस्ट्स की कहानी को दोहराना महत्वपूर्ण है। मेरी पहली फिल्म को आरम्भिक रूप से लिए चुना जाना मेरी उम्मीदों से परे एक अद्भुत अनुभव है।' वहीं अमित ने कहा, 'इस प्रोजेक्ट पर काम करना एक सपना अनुभव रहा है। 'सुपेथ' दिशा सिन्हा की जैसी फोटो फरकों को हमारी अग्रजनि है, हमारी फिल्म का इस फेस्टिवल के लिए चुना जाना सम्मान की बात है और मुझे उम्मीद है कि यह 'हाल से बहुत आगे तक जाएगी'।

कार्यक्रम • झालारापाटन में आयोजित हुआ समारोह, कलश में एकत्रित की मिट्टी, पौधरोपण भी किया 'मेरी माटी मेरा देश' शहीदों के सम्मान में चौपाटी पर पट्टिका अनावरण कार्यक्रम हुआ

भास्कर न्यूज़ | झालारापाटन

शहर में गुलनार को नगरपालिका के तत्वावधान में आजूरी के अमृत शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शहीदों के सम्मान में स्थायी चौपाटी पर पट्टिका अनावरण कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर पूर्व विभागाध्यक्ष निमित्त कुमार शर्मा ने कहा कि मातृ भूमि पर सर्वश्रेष्ठ सम्मान देने वाली शहीदों को नमन करने में गर्व का अनुभव हो रहा है। भूमि विकास बैंक के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने कहा प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर मातृ माटी मेरा देश अभियान का उद्देश्य शहीदों की स्मृति में अमृत सरोवर के निष्कट शिवालिक स्थापित किए जा रहे हैं जिससे हर भारतीय को आजादी के लिए कुर्बानी देने के लिए सौरी का बलिदान प्रेरणा दे दे। पट्टिका अनावरण कार्यक्रम में कवि अजय शहीदों के बलिदान से ही देशोपार्थक्य का प्रेरणा प्रेरित है। कक्षा व्यवहार संघ अध्यक्ष योगेश इंदिये ने भी समारोह को संबोधित किया।



झालारापाटन, शहर की चौपाटी पर पट्टिका अनावरण कार्यक्रम में मौजूद अतिथि व सदस्य।

संजीव पलेज के नेतृत्व में राष्ट्रीय सेवा योजना के 75 स्वयंसेवक विद्यार्थियों एवं शाला परिवार के सदस्यों द्वारा 75 पौधे लगाए गए। साथ ही कलश अर्पण के बाद मिट्टी का आजादी के अमृत शहीदों के सम्मान में अमृत सरोवर के लिए 'मेरी माटी मेरा देश' कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्रभावचर्य ने सभी को पंच प्राण की शपथ दिलाई। प्रधनमंत्रि ने अपने उद्बोधन में सभी से सदा का पंच प्राण की शपथ और एक समूह और कल्याणकारी समाज के निर्माण के लिए पंच प्राण को अमनता का आह्वान किया। झालारापाटन शहर सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निर्देशन में राकेशी उच्च माध्यमिक स्कूल खानपुर बौद्धिक पर माटी का नमन की जायें कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कवि अमृत शहीदों के सम्मान में अमृत सरोवर के लिए 'मेरी माटी मेरा देश' कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्रभावचर्य ने सभी को पंच प्राण की शपथ दिलाई। प्रधनमंत्रि ने अपने उद्बोधन में सभी से सदा का पंच प्राण की शपथ और एक समूह और कल्याणकारी समाज के निर्माण के लिए पंच प्राण को अमनता का आह्वान किया।

राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन

झालारापाटन रायपुर में गुलनार को राजीव गांधी ओलंपिक खेल का समापन हुआ। मुख्य अतिथि अतिथि प्रधनमंत्रि नरेंद्र मोदी प्रभा सोनी, बालचंद्र आर्य, मोहम्मद रिखान, मोहम्मद कासिम, शैलेन्द्र सिंह रहे। खेल प्रमोटी राहुल सिंह शाला ने बताया कि कुल 4019 अर्द्धी टीम विजेता रही व अर्द्धी 3718 टीम उर्वजिता रही। विजेता टीमों में अर्द्धी 4373 गिरापुर विजेता व अर्द्धी 974 गिरापुर टीम उर्वजिता रही। और कई प्रतिस्पर्धियों में खिलाड़ियों ने विजय हासिल की। इस दौरान मीडिया प्रमोटी योगेश कुमार सुयन, उच प्रधनमंत्रि दिनेश मिश्र संत



सुयन, सामर्या में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का हुआ समापन।

अन्य मौजूद रहे। वहीं रायपुर गिरापुर में समापन समारोह का आयोजन किया। जिसमें मुख्य अतिथि सरपंच मोहनलाल मीरा रहे। प्रधनमंत्रि संतोष हार्दा ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल प्रमाण पत्र एवं मेडल निशित किया। सुयन के नेतृत्व में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन समारोह हुआ। जिसमें

नेतृत्व दिव्यालय के प्रमाण में आयोजित समापन समारोह में नेतल सिंह पंचर मुख अतिथि रहे, जिनके अध्यक्षता शिखरि ने की। कार्यक्रम के दौरान विजेता टीमों को मेडल व ट्रफियां निशित की गईं। समारोह में कौमंडल उपमुख्य मोहन गुर्जर, मंडल प्रधनता पीरु गौरी, पंचम अध्यक्ष पीरु सिंह, इंसरचरद, कालुलाल, प्रिस्तरल जगदीश दामि मौजूद रहे।

किन्हे, खो-खो, कुम्हड़ी, रसकली की विजेता टीमों को उपकर निशित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राधेश गुला करानन रहे। कार्यक्रम में जसवंत गुर्जर, कौमंडल अध्यक्ष बालचंद्र पाकड़, सरपंच मण्डल अट्ट प्रमाण में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सरपंच मया केनील रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था प्रधन स्मृति मालवीय ने की।

जिला कारागृह का किया औचक निरीक्षण

झालारापाटन जिला एवं सेशन न्यायाधीश के निदेशानुसार अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश लोकेश कुमार शर्मा ने गुलनार को जिला कारागृह का अचक निरीक्षण किया। कारागृह निरीक्षण के दौरान सर्वत्र शर्मा ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्रधिकरण समान के कमजोर एवं पिछड़े वर्ग को मुक्त करने सहायता प्रदान करता है। निरीक्षण के दौरान जिन बंदियों के अधिकारता नहीं है उन बंदियों के निष्कृत विधिक सहायता के तहत निष्कृत विधिक सहायता के लिए फर्म भवरा गए एवं बंदियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की। सर्वत्र शर्मा ने कारागृह के निरीक्षण के दौरान लैकरी में सफाई के कामों की निशित का अचक निरीक्षण किया। वहीं बंदियों को भोजन, पीने के पानी, कैदीन विनियम शर्मा, प्रकाशचंद्र, ताराचंद्र, अमित कुमार व ग्राम पंचमाल स्टारफ और विद्यार्थियों के साथ ग्राम पंचमाल परिसर एवं विद्यालय परिसर में निरीक्षण किया गया। प्रधनमंत्रि शिव प्रकाश, अजय कुमार व भूईंदर सिंह मौजूद थे।

आज विजली बंद रहेगी

चौमाला कस्बे में रुद्रगढ़ को सांठे 4 घंटे बिजली बंद रहेगी। कर्मचर अचक निरीक्षण करके बाद के कारण लाला को रुद्रगढ़ कस्बे के कारण रुद्रगढ़ को रुद्रगढ़ कस्बे की बिजली सप्लाई 12 बजे से 4.30 बजे तक बंद रहेगी।

गुरुग्राम में बन रही 151 फीट ऊंची प्रतिमा के लिए अष्टधातु संग्रह को आया अहिंसा रथ



गुरुग्राम में बन रही 151 फीट ऊंची प्रतिमा के लिए अष्टधातु संग्रह को आया अहिंसा रथ। अहिंसा रथ में 27 पंचमाल में गौरी की मूर्ति को करारा में लैकरी पंच प्राण की शपथ प्रमाण करवाई गई। प्रमाण सरोठी में अहिंसा रथ अहिंसा रथ (संग्रह) के रूप में मूर्ति को करारा में लैकरी पंच प्राण की शपथ प्रमाण करवाई गई।

कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार के आकंट में डूबी है: गौड़

भ्रष्ट शासन, प्रशासन नहीं सहेगा खानपुर कार्यक्रम का आयोजन किया

सहोदरभाई भारतीय जनता पार्टी की ओर से सरपंच संघ प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुनसिंह गौड़ के मुख्य आतिथ्य में अब भ्रष्ट शासन, प्रशासन नहीं सहेगा खानपुर कार्यक्रम सुधवार को बालापुर हनुमान मंदिर मैदान में आयोजित किया। इससे पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं ने कस्बे के मुख्य मार्गों से रैली निकाली। रैली में युवा नारे लगाते चल रहे थे। भाजपा नेता अर्जुनसिंह गौड़ ने सभी को संबोधित कर कहा कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार के आकंट में डूबी है। कांग्रेस विधायक ही मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे। सभी को भाजपा जिला परिषद प्रधनता मीरा मुनि गौड़, पूर्व उपप्रधन सचिव यादव, सारीला सरपंच सुशेरा शर्मा, लायलक



सरपंच अर्जुन सुयन ने भी संबोधित किया। इस दौरान जनपद मंडल प्रमाण गौतम, व्यापार संघ अध्यक्ष गिरिश सोनी, निरुजन, ग्राम संघर्ष समिति अध्यक्ष श्रीधर मालव, हिन्दू संघर्ष के प्रधनता मोशे शर्मा, खेड़ा सरपंच रामचंद्र गुर्जर, पंचराना सरपंच गौरीधर मेलो मौजूद रहे।

Table with 4 columns: शालारापाटन, अरनावार, बकानी, रतलाई, रायपुर, सुरेल, पिड़ावा, खानपुर. Rows show various categories and values.

बुजारे बनी महिला ब्राह्मण महारामा की तहसील अध्यक्ष



महामनीश्री राजस्थान महिला ब्राह्मण महारामा की प्रदेश उपाध्यक्ष मंजु शर्मा, डॉ. सुरशीला शर्मा व वर्णमाला व्यास की सहमति से झालारापाटन जिलाध्यक्ष दुर्गा निदिनी शर्मा ने भवानीमंडी की बुजारे शर्मा को पंचपाड़ तहसील अध्यक्ष बनाया। इस दौरान शर्मा ने कहा कि मैं संसदन के शीर्ष पदाधिकारियों के दिशा निर्देश को पालन करते हुए समाजहित में अपना श्रेष्ठ प्रयास करूंगी। तहसील अध्यक्ष बनने पर उनके चाहने वालों ने हार्द व्यक्त किया और बधाईयां दीं।

गांव बाहर भोजन बनाया

कारण कस्बे में सभी ग्रामीणों ने गुलनार को मिस्कर गांव बाहर भोजन बनाया। इस मौके पर स्कूल के छात्र-छात्राओं ने भी गांव बाहर भोजन किया। भवधान की पूजा-अर्चना की गई। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 15 दिनों से बाहिर नहीं हो रही है, इस कारण फरलों में नुकसान हो रहा है। सरपंच बालुसिंह ने बताया कि सामूहिक रूप से गांव के बाहर भोजन बनाने की परंपरा के अनुसार ग्रामीणों ने गांव से बाहर जाकर भोजन बनाया। मान्यता है कि इससे इंदर प्रसन्न होते हैं।

Financial statement table for SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED. Includes columns for 3 months ended, Preceding 3 months ended, Corresponding 3 months ended in the previous year, and Previous Accounting Year ended. Rows include Total Income from Operations, Profit/Loss, and Earnings per share.

Advertisement for 'आजादी का ठरुम' featuring a car and a group of people. Text includes 'आजादी का ठरुम', 'दैनिक भास्कर', 'स्कीम फॉर्म 12 से 22 अगस्त तक नीचे दिए गए स्थानों पर जमा कर सकते हैं', and 'कलेक्शन सेंटर सूची'.